

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

QUIZ
PART-06

1. वाणिज्यिक पत्र (CP) किस प्रकार का लेख-पत्र है?

- A. सुरक्षित मुद्रा बाजार लेख-पत्र
- B. असुरक्षित मुद्रा बाजार लेख-पत्र
- C. दीर्घकालिक ऋण पत्र
- D. बैंक द्वारा जारी किया गया चेक (B)

व्याख्या: वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार लेख-पत्र होता है, जो अल्पकालिक उधार के लिए प्रयोग किया जाता है।

2. वाणिज्यिक पत्र किस रूप में जारी किया जाता है?

- A. डिमांड ड्राफ्ट
- B. वचन पत्र
- C. ऋणपत्र
- D. शेयर (B)

व्याख्या: यह वचन पत्र के रूप में अल्पकालिक उधार के लिए जारी किया जाता है।

3. भारत में वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति कब दी गई?

- A. 1980
- B. 1990
- C. 2000
- D. 1985 (B)

व्याख्या: 1990 से साख-विश्वसनीय कंपनियों को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दी गई।

4. वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि क्या होती है?

- A. 1 दिन से 10 दिन
- B. 10 दिन से 6 महीने
- C. 7 दिन से 1 वर्ष
- D. 1 वर्ष से 5 वर्ष (C)

व्याख्या: वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि 7 दिन से 1 वर्ष तक होती है।

5. कौन वाणिज्यिक पत्रों में निवेशक हो सकता है?

- A. केवल निजी निवेशक
- B. केवल सरकारी विभाग
- C. बैंकिंग कंपनियाँ, NRI, FII आदि
- D. केवल आम जनता (C)

व्याख्या: कई संस्थाएँ जैसे बैंकिंग कंपनियाँ, पंजीकृत निकाय, NRI और FII इसमें निवेश कर सकते हैं।

6. वाणिज्यिक पत्र का एक प्रमुख लाभ क्या है?

- A. जमानत की आवश्यकता होती है
- B. तरलता कम होती है
- C. स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय
- D. केवल दीर्घकालिक उपयोग (C)

व्याख्या: वाणिज्यिक पत्र स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होता है, जिससे इसकी तरलता अधिक होती है।

7. वाणिज्यिक पत्र किस प्रकार की कंपनियाँ ही जारी कर सकती हैं?

- A. कम साख वाली
- B. नई शुरू हुई
- C. अच्छी साख वाली
- D. बिना पंजीकरण वाली (C)

व्याख्या: केवल अच्छी साख वाली कंपनियाँ वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती हैं।

8. वाणिज्यिक पत्रों का एक नुकसान क्या है?

- A. पूरी तरह से जोखिम-रहित
- B. फंड जुटाने की सीमा आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्ध नकदी तक
- C. दीर्घकालिक ऋण का विकल्प
- D. ब्याज दर शून्य (B)

व्याख्या: वाणिज्यिक पत्रों द्वारा जुटाई जाने वाली राशि नकदी उपलब्धता तक सीमित रहती है।

9. वाणिज्यिक पत्र किसके लिए उपयोगी है?

- A. दीर्घकालिक पूँजी जुटाने के लिए
- B. व्यक्तिगत उपयोग के लिए
- C. अल्पकालिक कोष जुटाने के लिए
- D. स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए (C)

व्याख्या: वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक उधार जुटाने का साधन है।

10. वाणिज्यिक पत्रों से अतिरिक्त कोष पर क्या लाभ मिलता है?

- A. कोई लाभ नहीं
- B. अच्छा प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है
- C. ब्याज नहीं देना पड़ता
- D. यह कभी परिपक्व नहीं होता (B)

व्याख्या: अतिरिक्त कोष पर वाणिज्यिक पत्र अच्छा प्रतिफल प्रदान कर सकते हैं।